



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

13 जून 2008



खंड 23

संख्या 24

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपए)

मद	2007	2008		घट-बढ़	
	8 जून	30 मई	6 जून #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	5,16,608	6,12,665	6,18,475	5,809	1,01,867
संचलन में नोट	5,16,587	6,12,653	6,18,464	5,811	1,01,877
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	21	12	11	-1	-10
जमाराशियां					
केंद्र सरकार	101	100	101	—	—
बाजार स्थिरीकरण योजना	86,306	1,75,362	1,74,433	-929	88,126
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,97,292	3,09,968	2,81,242	-28,726	83,950
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	2,527	4,094	4,200	106	1,673
अन्य बैंक	9,245	13,819	14,006	188	4,761
अन्य	21,096	13,738	12,095	-1,642	-9,001
अन्य देयताएं	1,33,377	2,93,617	3,03,993	10,376	1,70,616
कुल देयताएं / आस्तियां	9,66,593	14,23,404	14,08,586	-14,818	4,41,993
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	8,28,522	12,98,464	13,09,030	10,566	4,80,508
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	28,147	39,190	39,190	—	11,043
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	76,455	74,753	50,210	-24,543	-26,245
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	21,579	—	—	—	-21,579
राज्य सरकारें	903	—	—	—	-903
नाबार्ड	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	101	2,665	528	-2,137	427
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	17	19	7	-12	-10
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	86	135	83	-52	-3
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	3,973	2,750	2,750	—	-1,223
अन्य आस्तियां	6,811	5,429	6,788	1,359	-23

(1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों / बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं।

(2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।

(3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	6 जून 2008 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2008 की समाप्ति पर		दिसंबर 2007 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	13,50,520	315,660	10,577	1,046	1,12,555	5,937	2,65,500	40,344	4,91,969	106,113
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	13,09,030	305,920	10,566	1,045 *	1,13,007	6,690	2,58,545	39,367	4,80,508	103,743
(ख) स्वर्ण	39,190	9,202	—	—	-934	-837	6,371	874	11,043	2,291
(ग) विशेष आहरण अधिकार	47	11	—	—	-27	-8	34	8	41	10
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	2,253	527	11	1	509	91	550	95	377	69

* : अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपए)

मद	30 मई 2008 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		माह में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2007-2008	2008-2009	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	42,279	-3,469	-4,007	-4,500	4,672	5,514
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	33,690	2,728	-10,084	694	-3,073	8,375
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	24,015	8,368	2,857	5,636	7,529	8,784
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	32,53,699	61,507	31,436	56,760	4,99,034	6,10,330
		(1.9)	(1.2)	(1.8)	(23.3)	(23.1)
मांग	4,60,955	748	-54,973	-63,355	47,085	86,198
मीयादी	27,92,745	60,759	86,410	1,20,115	4,51,949	5,24,132
उधार ⁽³⁾	1,18,581	15,208	-4,869	12,077	-326	37,614
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	2,85,537	-8,402	-21,464	-12,818	23,627	64,768
रिजर्व बैंक से उधार	2,665	2,191	-6,144	-1,335	99	2,564
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,30,117	57,799	16,000	54,951	77,228	1,17,756
पास में नकदी	20,149	2,379	-1,069	2,105	3,691	5,080
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	3,09,968	55,420	17,069	52,846	73,537	1,12,676
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	33,914	-1,924	-2,598	-2,102	2,415	7,043
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	13,758	-756	-7,430	-6,167	-1,076	2,921
बैंकों को अग्रिम	4,312	-285	-2,407	533	648	516
अन्य आस्तियां	37,081	9,813	-1,803	5,925	11,071	15,381
निवेश⁽⁵⁾	10,05,861	-8,430	26,938	34,147	68,943	1,87,407
		(-0.8)	(3.4)	(3.5)	(9.2)	(22.9)
सरकारी प्रतिभूतियों में	9,86,645	-8,451	27,358	27,983	71,035	1,83,229
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	19,217	21	-420	6,164	-2,092	4,179
बैंक ऋण	23,72,369	43,303	-40,435	10,455	3,83,649	4,81,614
		(1.9)	(-2.1)	(0.4)	(25.5)	(25.5)
खाद्य ऋण	48,379	7,355	-3,079	3,980	2,896	4,937
खाद्येतर ऋण	23,23,990	35,948	-37,356	6,475	3,80,753	4,76,677
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	22,72,821	42,971	-29,540	11,245	3,78,969	4,58,490
देशी बिल - खरीदे गए	12,143	-624	-4,100	-451	1,701	324
भुनाए गए ⁽⁶⁾	42,035	1,184	-1,137	1,482	1,191	11,858
विदेशी बिल - खरीदे गए	15,862	192	-3,457	-638	496	3,176
भुनाए गए	29,508	-420	-2,201	-1,183	1,292	7,765
नकद-जमा अनुपात	10.15					
निवेश-जमा अनुपात	30.91					
ऋण-जमा अनुपात	72.91					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 1. 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

2. जब माह का अंतिम शुक्रवार रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए एकांतर शुक्रवार नहीं है तब यथा अपेक्षित बैंकों द्वारा प्रस्तुत विशेष विवरणियों पर आधारित।

3. वर्ष 2008 के वर्ष-दर-वर्ष अंतर पिछले वर्ष के रिपोर्टिंग शुक्रवारों के स्तर की तुलना में है।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2007	2008					
	1 जून	25 अप्रैल	2 मई	9 मई	16 मई	23 मई	30 मई
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	6.50	7.50	7.75	7.75	8.00	8.00	8.25
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
मूल उधार दर ⁽³⁾	12.75-13.25	12.25-12.75	12.25-12.75	12.25-12.75	12.25-12.75	12.25-12.75	12.25-12.75
जमा दर ⁽⁴⁾	7.50-9.00	8.25-9.00	8.25-9.00	8.25-9.00	8.25-9.00	8.25-8.75	8.25-8.75
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गए उधार	0.10/8.10	2.00/7.50	4.75/7.50	3.50/6.25	4.75/8.00	1.75/6.75	6.00/8.25
- दिये गए उधार	0.10/8.10	2.00/7.50	4.75/7.50	3.50/6.25	4.75/8.00	1.75/6.75	6.00/8.25

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बाँडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपए)

मद	2008 - 2009			2007 - 2008		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (3)-(2)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (6)-(5)
	2008			2007		
	28 मार्च	23 मई		30 मार्च	25 मई	
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक ऋण	23,48,493	23,64,417	15,923 (0.7)	19,31,189	18,83,720	-47,469 (-2.5)
क. खाद्य ऋण	44,399	54,343	9,944	46,521	44,864	-1,657
ख. खाद्येतर ऋण	23,04,094	23,10,074	5,980 (0.3)	18,84,669	18,38,856	-45,813 (-2.4)
2. निवेश	95,375	91,076	-4,300	83,545	77,043	-6,502
क. वाणिज्यिक पत्र	13,054	10,896	-2,157	8,978	6,917	-2,061
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	26,399	27,714	1,315	18,352	19,165	813
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	3,022	3,778	755	2,127	1,907	-220
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	23,376	23,936	560	16,225	17,258	1,033
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	55,923	52,466	-3,457	56,216	50,962	-5,254
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	27,482	25,522	-1,960	28,595	24,806	-3,790
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	28,442	26,944	-1,498	27,620	26,156	-1,464
3. कुल (1ख+2)	23,99,470	24,01,150	1,680 (0.1)	19,68,214	19,15,899	-52,315 (-2.7)
ज्ञापन मदे :						
में निवेश						
क. पारस्परिक निधियों द्वारा जारी लिखतें	18,478	50,868	32,391	11,659	25,575	13,915
ख. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतें	25,598	25,828	229	26,189	23,761	-2,428
ग. अन्यो द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	28,780	23,703	-5,077	17,623	13,202	-4,420

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

6. विदेशी मुद्रा दरें - हाजिर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2008					वार्षिक वृद्धि (+) ह्रास (-) (प्रतिशत)				
	2 जून	3 जून	4 जून	5 जून	6 जून	2 जून	3 जून	4 जून	5 जून	6 जून
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	42.2400	42.5300	42.6300	42.8600	42.7900	—	—	-5.07	-5.37	-5.23
यूरो	65.5800	66.1800	65.8000	66.1700	66.7100	—	—	-17.28	-17.27	-17.72
फेडरल की सांकेतिक दरें (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर { खरीद	42.2350	42.5300	42.6200	42.8600	42.7900	—	—	-5.06	-5.38	-5.21
{ बिक्री	42.2450	42.5400	42.6300	42.8700	42.8000	—	—	-5.06	-5.38	-5.21
पौंड { खरीद	83.2125	83.4175	83.3825	83.5675	83.7825	—	—	-3.73	-3.30	-3.43
स्टर्लिंग { बिक्री	83.2400	83.4500	83.4175	83.6000	83.8250	—	—	-3.73	-3.29	-3.44
यूरो { खरीद	65.5525	66.2150	65.7850	66.1750	66.7175	—	—	-17.27	-17.26	-17.72
{ बिक्री	65.5725	66.2425	65.8075	66.1950	66.7475	—	—	-17.27	-17.26	-17.72
100 येन { खरीद	40.0825	40.8825	40.4975	40.6025	40.3300	—	—	-18.12	-18.07	-17.19
{ बिक्री	40.1075	40.9000	40.5275	40.6200	40.3500	—	—	-18.15	-18.06	-17.20
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमियम (प्रतिशत वार्षिक)										
1 - माह	2.41	1.69	2.81	2.80	2.80					
3 - माह	1.99	1.69	2.49	2.61	2.52					
6 - माह	1.78	1.55	2.11	2.24	2.29					

— : पिछले वर्ष के तदनुसंगी दिन बाजार बंद।

टिप्पणी : 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

यद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2008		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2007-2008		2008-2009		2007		2008	
	31 मार्च #	23 मई #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम ₃	40,02,189	40,77,302	16,724	0.4	13,565	0.4	75,113	1.9	5,50,379	19.8	7,47,644	22.5
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	5,67,746	6,02,706	2,017	0.3	21,016	4.4	34,960	6.2	67,760	15.5	98,784	19.6
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	5,66,829	5,01,857	-2,144	-0.4	-63,641	-13.4	-64,972	-11.5	39,596	10.6	89,811	21.8
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	28,58,550	29,66,465	16,713	0.6	58,294	2.5	1,07,915	3.8	4,44,043	22.6	5,58,166	23.2
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	9,065	6,274	138	2.3	-2,105	-28.1	-2,790	-30.8	-1,020	-15.9	883	16.4
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	9,04,927	9,19,540	2,308	0.3	24,085	2.9	14,613	1.6	67,326	8.5	57,891	6.7
(क) रिजर्व बैंक	-1,10,223	-1,44,323	-3,748		552		-34,100		-1,430		-1,50,627	
(ख) अन्य बैंक	10,15,150	10,63,863	6,056	0.6	23,533	2.8	48,713	4.8	68,757	8.7	2,08,518	24.4
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	25,62,652	25,81,278	19,101	0.7	-46,798	-2.2	18,626	0.7	4,03,342	24.0	4,97,998	23.9
(क) रिजर्व बैंक	1,788	1,383	—	—	-151	-9.8	-405	-22.6	-1	-0.1	-3	-0.2
(ख) अन्य बैंक	25,60,863	25,79,895	19,101	0.7	-46,647	-2.2	19,031	0.7	4,03,343	24.0	4,98,001	23.9
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,66,297	13,80,062	58,885	4.5	-35,519	-3.9	1,13,765	9.0	83,126	10.5	5,02,402	57.2
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	9,228	9,228	—	—	196	2.4	—	—	682	8.8	772	9.1
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं	7,40,915	8,12,806	63,570	8.5	-71,601	-12.5	71,891	9.7	4,096	0.8	3,11,419	62.1
उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं	2,13,197	3,04,514	58,084	23.6	-55,153	-30.6	91,317	42.8	-45,762	-26.8	1,79,319	143.2

टिप्पणी : 31 मार्च 2008 की शेष सरकारी राशियां लेखा-बंदी के पहले की हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

यद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2008		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2007-2008		2008-2009		2007		2008	
	31 मार्च #	6 जून #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	9,28,317	9,32,273	-24,264	-2.5	39,984	5.6	3,956	0.4	1,54,563	26.0	1,83,299	24.5
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	5,90,805	6,27,692	5,811	0.9	20,845	4.1	36,887	6.2	68,827	15.1	1,02,649	19.6
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	3,28,447	2,99,448	-28,432	-8.7	11,769	6.0	-28,999	-8.8	77,271	58.6	90,384	43.2
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	9,065	5,132	-1,642	-24.2	7,371	98.3	-3,932	-43.4	8,465	132.2	-9,735	-65.5
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	-1,10,223	-1,24,207	-23,631		6,905		-13,984		1,913		-1,36,864	
	-1,10,353	-1,24,165	-23,631		9,660		-13,812		1,010		-1,35,961	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	6,378	1,918	-2,201		-6,446		-4,460		-1,243		-808	
	4,590	535	-2,149		-6,295		-4,055		-1,242		-806	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,36,130	13,48,203	10,566	0.8	-9,502	-1.1	1,12,073	9.1	1,11,961	15.0	4,91,551	57.4
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	9,228	9,228	—	—	196	2.4	—	—	682	8.8	772	9.1
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	2,13,197	3,02,869	8,998	3.1	-48,830	-27.1	89,673	42.1	-41,251	-23.9	1,71,352	130.3

टिप्पणी : 31 मार्च 2008 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के पहले की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो की नीलामी

(करोड़ रुपये)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रेपो अवधि (दिन)	रेपो (बढ़ाना)					रिवर्स रेपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+) /कमी(-) (6-11)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 जून 2008	1	1	10	1	10	7.75	2	2,310	2	2,310	6.00	-2,300	2,300
3 जून 2008	1	—	—	—	—	—	17	27.955	17	27.955	6.00	-27.955	27.955
4 जून 2008	1	—	—	—	—	—	22	29.095	22	29.095	6.00	-29.095	29.095
5 जून 2008	1	—	—	—	—	—	21	23.395	21	23.395	6.00	-23.395	23.395
6 जून 2008	3	—	—	—	—	—	19	22.025	19	22.025	6.00	-22.025	22.025

@ : रातभर के रेपो को घटाकर।

' — ' : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियाँ			भा.रि. बैंक पर भार	कुल निर्गम (8+9+10)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91-दिवसीय खजाना बिल													
2007-2008 3 अक्टू. 2 जनवरी	5 अक्टू. 4 जनवरी	3,500 500	94 71	5,383 3,411	4,000 1,000	80 7	3,500 500	4,000 1,000	— —	7,500 1,500	98.28 98.28	7.1443 7.0196	59,853 38,498
2008-2009 2 अप्रैल 4 जून	4 अप्रैल 6 जून	500 3,000	49 82	2,633 5,569	4,500 4,427	3 67	500 3,000	4,500 4,427	— —	5,000 7,427	98.30 98.17	6.9366 7.5602	43,457 56,679
182-दिवसीय खजाना बिल													
2007-2008 3 अक्टू. 9 जनवरी	5 अक्टू. 11 जनवरी	2,500 1,500	71 62	4,990 3,102	— —	48 29	2,500 1,500	— —	— —	2,500 1,500	96.51 96.55	7.3169 7.2308	31,141 22,880
2008-2009 2 अप्रैल 28 मई	4 अप्रैल 30 मई	500 500	52 52	2,095 1,872	— 700	2 6	500 500	— 700	— —	500 1,200	96.56 96.39	7.1877 7.5326	14,785 17,788
364-दिवसीय खजाना बिल													
2007-2008 10 अक्टू. 2 जनवरी	12 अक्टू. 4 जनवरी	3,000 1,000	154 98	11,232 6,415	— —	31 8	3,000 1,000	— —	— —	3,000 1,000	93.19 93.16	7.3739 7.3855	58,301 58,034
2008-2009 9 अप्रैल 4 जून	11 अप्रैल 6 जून	2,000 1,000	95 79	4,698 3,695	— 1,400	44 5	2,000 1,000	— 1,400	— —	2,000 2,400	93.18 92.96	7.3739 7.6056	57,075 58,707

टिप्पणियाँ : 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फार्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगिता बोलियों को अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास संचयी नकद जमा शेष

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23 मई 2008	10 मई	11 मई	12 मई	13 मई	14 मई	15 मई	16 मई	17 मई	18 मई	19 मई	20 मई	21 मई	22 मई	23 मई
	2,67,823	5,35,645	8,11,780	10,89,997	13,72,225	16,58,072	19,62,530	22,69,504	25,76,479	28,83,072	31,46,513	34,06,120	36,56,543	39,19,476
6 जून 2008	24 मई	25 मई	26 मई	27 मई	28 मई	29 मई	30 मई	31 मई	1 जून	2 जून	3 जून	4 जून	5 जून	6 जून
	2,66,595	5,33,190	8,22,539	11,25,836	14,17,204	17,26,536	20,36,327	23,47,292	26,58,256	29,54,181	32,26,529	35,00,805	37,79,958	40,60,763

टिप्पणी : ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
6 जुलाई 2007	1,02,992	4,186	6.25 — 9.69
12 अक्टू. 2007	1,22,142	9,398	6.87 — 10.00
4 जनवरी 2008	1,27,154	9,453	6.87 — 9.82
11 अप्रैल 2008	1,49,986	8,461	8.00 — 9.72
25 अप्रैल 2008	1,50,865	3,066	7.70 — 9.06
9 मई 2008	1,53,410	4,503	7.75 — 10.20

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर परास।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 जुलाई 2007	28,129	4,200	4.00 — 11.50
15 अक्टूबर 2007	38,495	6,977	7.00 — 13.00
15 जनवरी 2008	42,392	5,589	7.35 — 12.50
15 अप्रैल 2008	35,794	6,283	7.74 — 10.25
30 अप्रैल 2008	37,584	3,172	7.35 — 10.10
15 मई 2008	41,006	4,726	7.15 — 10.75

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2007	2008		निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		26 मई	29 मार्च *	24 मई #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.00	212.3	226.7	229.8	0.1	0.9	1.4	8.2
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	220.8	236.8	241.3	0.2	1.1	1.9	9.3
(i) फल और सब्जियां	2.92	243.9	239.8	253.2	-0.8	2.5	5.6	3.8
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और लुब्रिकैंट	14.23	322.1	341.8	347.2	—	1.4	1.6	7.8
विनिर्मित उत्पाद	63.75	184.9	197.5	199.6	0.1	0.7	1.1	8.0
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	158.2	158.3	156.8	-0.1	-0.7	-0.9	-0.9
(ii) खाद्य तेल	2.76	166.6	196.2	186.4	0.6	-0.8	-5.0	11.9
(iii) सीमेंट	1.73	212.4	221.2	219.1	-0.2	-1.1	-0.9	3.2
(iv) लोहा और इस्पात	3.64	268.6	352.8	352.4	—	-2.3	-0.1	31.2

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2007	2008				
	6 जून	2 जून	3 जून	4 जून	5 जून	6 जून
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	14255.93	16063.18	15962.56	15514.79	15769.72	15572.18
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	4198.25	4739.60	4715.90	4585.60	4676.95	4627.80

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त (टर्नओवर)*

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह						
	25 अप्रैल 2008	2 मई 2008	9 मई 2008	16 मई 2008	23 मई 2008	30 मई 2008	6 जून 2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	10,189	11,587	7,825	10,349	5,590	10,465	8,967
ख) दिए गए ऋण	11,156	12,336	8,784	11,345	6,475	11,409	10,003
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	1,111	906	1,088	1,141	924	955	1,047
ख) दिए गए ऋण	144	157	129	145	39	11	11
3. कुल							
क) लिए गए उधार	11,300	12,493	8,913	11,490	6,514	11,420	10,015
ख) दिए गए ऋण	11,300	12,493	8,913	11,490	6,514	11,420	10,015

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* : इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)*

(करोड़ रुपए)

मद	समाप्त सप्ताह					
	2 मई 2008	9 मई 2008	16 मई 2008	23 मई 2008	30 मई 2008	6 जून 2008
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	60,950	86,551	82,646	38,588	49,620	32,766
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	889	10,048	251	100	511	369
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	1,664	3,077	2,490	3,393	915	2,681
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	188	1,020	447	713	159	278
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	630	1,751	956	1,036	280	2,562
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	90	—	175	35	51	397

@ : रेपो लेनदेन को छोड़कर।

* : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद में उसके अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्थिति की तारीख	वणिक						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
19 मई 2008	87	62	16	—	2	2	170	100	92	231	230	—
20 मई 2008	2,146	1,112	589	543	1,572	1,151	4,676	5,675	262	5,997	2,636	217
21 मई 2008	2,308	1,127	940	511	1,048	908	6,315	5,648	270	3,437	1,223	144
22 मई 2008	1,727	1,433	505	249	1,228	958	4,397	3,929	1,033	3,344	1,612	770
23 मई 2008	2,030	1,371	1,025	245	964	817	4,952	4,427	503	3,682	1,051	691
बिक्री												
19 मई 2008	187	53	9	—	1	4	113	135	44	234	228	11
20 मई 2008	2,213	1,289	451	618	1,258	1,467	4,456	5,920	519	6,031	2,565	202
21 मई 2008	2,321	1,701	479	432	962	1,036	5,627	5,467	413	3,466	1,234	169
22 मई 2008	2,429	1,610	499	254	1,046	1,148	4,135	4,171	892	3,237	1,488	841
23 मई 2008	2,284	1,150	745	237	997	822	4,530	4,375	749	3,689	1,059	755

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी : ये आंकड़े वणिक और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह					
	2 मई 2008	9 मई 2008	16 मई 2008	23 मई 2008	30 मई 2008	6 जून 2008
1	2	3	4	5	6	7
राशि	100.50	275.04	42.84	58.93	123.91	72.23

टिप्पणी : 8 अक्टूबर 2005 से थोक ऋण बाजार घटक में प्रत्येक शनिवार को प्रतिभूति व्यापार उपलब्ध नहीं है।

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपए)

धारक	6 जून 2008					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	13,308	5,463	27,200	45,971	884	6,667
राज्य सरकारें	47,895	27,178	5,683	5,982	86,738	618	-10,877
अन्य	786	16,192	6,642	25,525	49,144	-450	3,409

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार

(भा.रि.बैंक पर भार (डिवाल्वमेंट) / निजी स्थानन तथा खुला बाजार परिचालनों में बिक्री / खरीद)

(अंकित मूल्य करोड़ रुपए में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2008-2009 (6 जून 2008 तक)	2007-2008 (8 जून 2007 तक)	2007-2008	2008-2009 (6 जून 2008 तक)	2007-2008 (8 जून 2007 तक)	2007-2008
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जिसमें :	40,000	43,000	1,56,000	21,023	20,452	1,10,671
1.1 भारिबैं पर भार / निजी स्थानन	—	—	—	—	—	—
2. भारिबैंके खुला बाजार परिचालन - बिक्री	1,276	1,256	7,587	—	—	—
खरीद	1,062	10	13,510	—	—	—

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)[@]

(राशि करोड़ रुपए में)

यद	30 मई 2008 को समाप्त सप्ताह			6 जून 2008 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) संकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) संकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2008-09	—	—	—	260	8.1614	8.3524
2009-10	1.665	7.7786	8.5000	2,399	7.7557	8.0519
2010-11	156	7.9064	7.9559	710	7.9795	8.1558
2011-12	50	8.0455	8.0455	—	—	—
2012-13	—	—	—	1	—	—
2013-14	1.096	7.9992	8.0834	380	8.0485	8.1471
2014-17	3.091	7.8760	8.1904	1,631	8.0906	8.2275
2017-18	440	8.0725	8.2078	156	8.0950	8.2192
2018 से आगे	18,312	8.0085	9.0850	10,847	8.0404	9.1703
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	256	8.4025	8.6693	184	8.4183	8.6054
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	59	5.6003	7.0007	160	5.7524	6.7550
ख) 15 - 91 दिन	482	7.3000	7.5000	1,529	6.6002	7.5602
ग) 92 - 182 दिन	100	7.4801	7.5100	86	7.3600	7.5601
घ) 183 - 364 दिन	35	7.5000	7.6001	986	7.4500	7.5499
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	41			208		
: खरीद	10			189		
III. रेपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	77,821	5.75 (1)	9.10 (45)	68,197	2.00 (1)	9.50 (91)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1,569	7.00 (1)	8.25 (3)	1,703	5.50 (1)	7.20 (3)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	919	7.10 (1)	7.75 (3)	1,304	5.25 (1)	7.10 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	—	—	—	516	6.05 (3)	6.05 (3)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	4,736	7.00 (1)	7.75 (3)	1,185	5.80 (1)	7.25 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रेपो * ^	48,635	—	7.75	10	—	7.75
: रिवर्स रेपो !	1,220	—	6.00	1,04,780	—	6.00

@ : भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* : भा.रि.बैं. बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में हुए लेनदेन भी शामिल हैं।

** : न्यूनतम और अधिकतम संकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

* : कारोबार का पहला चरण (फ्रस्ट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रेपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।
साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः 550 रुपए और 1,500 रुपए तथा विदेश में क्रमशः 34 अमरीकी डॉलर और 85 अमरीकी डॉलर है।

श्रीमती रेखा मिश्रा द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए स्वरूपबद्ध, प्रकाशित और उनके द्वारा ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 टेलि.: 2218 3544 फॅक्स : (91-22) 2218 8702 में मुद्रित।